

21Pr 1

# सूरीनाम हिन्दी परिषद्



११ जुलाई २०२१  
प्रवेशिका परीक्षा

“जय प्रकाश हिन्दी संस्थान”  
प्रश्न पत्र 1

सूचना: सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक के आधार पर लिखे !

समय: 2½ घंटे

Cijfer:  $\frac{Score+10}{10}$

परीक्षा क्रमांक: \_\_\_\_\_

क. किन्हीं तीन [३] पद्यखण्डों का सरल अर्थ लिखिए-

[15]

1. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा ,खोय।  
अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय , ॥
2. भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहिं पठायो।  
चार पहर बंसीबट भटक्यो सांझ परे घर आयो ॥
3. गुरु गोविन्द दोऊ खड़े ,काके लागौं पांय।  
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताये ॥
4. रहिमन धागा प्रेम का,मत तोरो चटकाय।  
टूटे से फिर न जरै ,जरै गाँठ पर जाय ॥

ख. किन्हीं चार [४] प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

[20]

1. सूरदास की “बाल लीला” कविता का निचोड़ कीजिए।
2. “सबका मालिक एक” कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
3. “एक बूँद” कविता से हमें कौनसी सीख मिलती है?
4. “मस्ती का आलम” कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए।
5. कबीर के अनुसार बड़े होने का घमण्ड क्यों नहीं करना चाहिए?

ग. किन्हीं चार [४] प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

[20]

1. बनवीर उदय को क्यों मारना चाहते थे?
2. बुढ़िया ने बुद्ध को भिक्षा क्यों नहीं दी?
3. श्रीकृष्ण प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में क्यों चुना गया?
4. डाल से क्या हानी हो रही थी?
5. “रुपया सबसे महान है” ऐसा क्यों कहा जाता है?

- घ. किन्हीं दो [२] का सन्दर्भ सहित व्याख्याँ कीजिए— [10]
1. रहिमन देख बड़ेन को ,लघु न दीजै डार।  
जहां काम आवै सूई , कहा करे तलवार ॥
  2. यही पशु-प्रवृत्ती है ,कि आप आप ही चरे।,  
वही मनुष्य है ,कि जो मनुष्य के लिए मरे ॥
  3. पानी केरा बुदबुदा,उस मानुस की जात,  
देखत ही छिप जायगा ,ज्युँ तारा परभात ॥
- च. “एक राजा के दो सवाल” अथवा “पुरस्कार” का सार अपने शब्दों (लगभग १५० शब्द) में लिखिए। [15]
- छ. हिन्दी और सरनामी में क्या अंतर है? (३ लिखिए) [5]
- ज. हिन्दी हमारे देश में कैसे प्रबल बने। इस पर अपना विचार लिखिए। [5]

~ समाप्त ~